



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2004/माघ 9, 1925

No. 115]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2004/MAGHA 9, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2004

सं. 31 (आर ई-2003)/2002—2007

का.आ. 142(अ).— समय-समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002—2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. समय-समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात मर्दों, के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2002—2007 की आयात नीति की अनुसूची-1 की आयात नीति से संबंधित अध्याय-1क-सामान्य टिप्पणी के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“16. निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों का भारत में आयात, नामतः

- (i) घरेलू और वण्य पक्षी
- (ii) नवजात पक्षी
- (iii) टर्की कुक्कुट एवं अन्य नवजात चूजा प्रजातियां
- (iv) हैचिंग अंडे
- (v) घरेलू और वण्य पक्षियों के वीर्य
- (vi) घरेलू और वण्य पक्षियों का ताजा मांस
- (vii) पशु आहार में उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित पशुमूल (पक्षियों से) के उत्पाद
- (viii) हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा वायरस (फाउल प्लेग) के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए उन पक्षियों की पैथोलोजिकल सामग्री तथा बायोलॉजिकल उत्पाद जिन्हें प्रसंस्कृत नहीं किया गया है।

कोरिया गणतंत्र, वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया, पाकिस्तान एवं जापान से तथा ऐसे किसी अन्य देश से जहां से हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा (फाउल प्लेग) के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है, से आयात पर निषिद्ध, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि तक या इसमें संशोधन अथवा इसे वापिस लेने तक, जो भी पहले हो, लागू होगा।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फ़. सं. 01/89/180/विविध 52/एएम 04/पीसी-1ए]

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार तथा पदेन अपर सचिव,

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2004

No. 31/(RE-2003)/2002—2007

**S.O. 142(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Paragraph 2.1 of the Export and Import Policy, 2002—2007, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2002—2007 as under :

1. The following shall be added at the end of Chapter 1A-General Notes Regarding Import Policy of Schedule 1 of Import Policy of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2002—2007 as amended from time to time—

“16. Import into India of the following livestock and livestock products, namely :

- (i) domestic and wild birds,
- (ii) day old birds,
- (iii) turkey poultry and other newly hatched avian species,
- (iv) hatching eggs,
- (v) semen of domestic and wild birds,
- (vi) fresh meat of domestic and wild birds,
- (vii) products of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use,
- (viii) pathological material and biological products from birds which have not been processed to ensure the destruction of the Highly Pathogenic Avian Influenza virus (Fowl Plague)

from Republic of Korea, Vietnam, Thailand, Cambodia, Pakistan and Japan and such other countries reporting the outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza virus (Fowl Plague) shall be prohibited for a period of six months from the date of this notification or till such time it is modified or withdrawn, whichever is earlier.”

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Misc. 52/AM04/PC-IA]

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.